

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-१
संख्या: २०२१/VII-१/२०१८/१(९) / १८
देहरादून, दिनांक: /० दिसम्बर, २०१८

कार्यालय ज्ञाप

जनपद पिथौरागढ़, तहसील मुनस्यारी के ग्राम राया तोक गोलगांव (मलान) के क्षेत्रान्तर्गत कुल 4.930 है० भूमि में उप खनिज सोपस्टोन का खनन पट्टा चाहने हेतु मै० माँ देवी दुर्गा सोपस्टोन माईन्स, निवासी कमलुवागांजा मेहता (बोरा कालोनी) हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के आवेदन पत्र दिनांक 11.८.२०१७ के क्रम में इस आशय पत्र (letter of Intent) के माध्यम से राज्य सरकार मै० माँ देवी दुर्गा सोपस्टोन माईन्स, निवासी कमलुवागांजा मेहता (बोरा कालोनी) हल्द्वानी, जनपद नैनीताल (भागीदार १-श्रीमती हंसी जोशी पत्नी श्री गणेश चन्द्र जोशी, निवासी ग्राम कमलुवागांजा मेहता, पो० कमलुवागांजा, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल, २-श्री गंगावासी भारती पुत्र स्व० श्री रामस्वरूप भारती, निवासी ग्राम कठायतवाडा, निकट विकास खण्ड कार्यालय बागेश्वर, तहसील बागेश्वर एवं ३-श्री खीमानन्द शर्मा पुत्र श्री हरीदत्त, निवासी विकासनगर, बिठौरिया नं०-१ हल्द्वानी, नैनीताल) के पक्ष में जनपद पिथौरागढ़, तहसील मुनस्यारी के ग्राम राया तोक गोलगांव (मलान) के क्षेत्रान्तर्गत कुल 4.930 है० भूमि में उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 (यथासंशोधित, 2017) के प्रावधानानुसार उपखनिज सोपस्टोन का 25 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टा स्वीकृत करने की मंशा रखती है। आवेदक यदि उक्त खनन पट्टा लेने हेतु सहमत हों तो निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन पत्र प्राप्ति के छः माह में प्रस्तुत करें, जिससे खनन पट्टे की औपचारिक स्वीकृति जारी की जा सके :—

1. आवेदक द्वारा उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015, यथासंशोधित, 2017 के नियमों/प्रतिबन्धों पर लिखित सहमति पत्र।
2. उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 के प्रस्तर ३(दो)(५) के अनुसार पट्टाधारक द्वारा खनन योजना संबंधित खान अधिकारी/उप निदेशक (खनन) के समक्ष ₹ 20,000/-की धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कराने के उपरान्त चालान की प्रति के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
3. आवेदक द्वारा उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 के प्रस्तर-३(ग्यारह) में शासनादेश संख्या-1589/VII-१/२०१५/६८-ख/२०१५, दिनांक ७ अक्टूबर २०१५ के द्वारा किये गये संशोधन के अनुसार, बैक गारन्टी ₹ 1.00 लाख मैनुअल माईनिंग एवं ₹ 2.00 लाख मशीनीकृत माईनिंग हेतु निदेशक के पक्ष में प्रस्तुत करनी होगी।
4. उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 के प्रस्तर-७ के अनुसार पट्टाधारक को खनन पट्टे में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना का०आ० 2601 (अ) दिनांक ०७ अक्टूबर २०१४ के क्रम में जारी शासनादेश संख्या-1621/VII-१/२१२-ख/२०१४, दिनांक १७ दिसम्बर २०१४ के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
5. उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 के प्रस्तर-८ के अनुसार आवेदक को प्रतिभूति धनराशि ₹ 10,000/- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में बन्धक करना होगा।
6. आवेदक को खनन पट्टे का जी०एस०टी० नम्बर देना अनिवार्य होगा।
7. राजस्व विभाग द्वारा निजी भूमि धारकों की सूची खसरा विवरण सहित साफ्ट कापी एवं हार्ड कापी ए-४ साईज में निदेशालय एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
8. खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक उपयोग की भूमि में खनन कार्य निषिद्ध रहेगा।
9. आवेदक खनन कार्य के दौरान स्थल में उपलब्ध सार्वजनिक सम्पत्ति, आवासीय भवन, सार्वजनिक स्थल भवन आदि को हानि नहीं पहुँचायेगा। हानि पहुँचाने की स्थिति में पट्टाधारक स्वयं जिम्मेदार होगा।
10. प्रस्तावित क्षेत्र का सीमाबन्धन भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के अधिकारियों द्वारा राजस्व विभाग तथा प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ वन प्रभाग के प्रतिनिधि के द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। सीमाबन्धन के समय यदि क्षेत्र का कोई भाग आपत्तिजनक पाया जाता है तो उसे पृथक कर दिया जायेगा, जिसके फलस्वरूप क्षेत्र अथवा क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो वह आवेदक को मान्य होगा।

11. खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत आने वाले वृक्षों की सुरक्षा का दायित्व आवेदक का होगा।
12. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1457/VII-1/2017/68-ख/15, दिनांक 17 नवम्बर, 2017 के बिन्दु सं0 6(तीन)(क)(2) के अनुसार आशय पत्र की समस्त शर्तों को पूर्ण किये जाने के पश्चात् निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की स्पष्ट संस्तुति पर शासन द्वारा खनन पट्टा स्वीकृत किया जायेगा, परन्तु पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में खनन कार्य का प्रारम्भ संबंधित भू-स्वामियों की सहमति/अनापत्ति के उपरान्त ही किया जायेगा।
13. आवेदक को खनन एवं राजकीय बकाया न होने के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अद्यतन अदेयता प्रमाण-पत्र तथा चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
14. आवेदक को आयकर/आयकर विवरणी जमा करा दिये जाने के संबंध में आयकर अधिकारी का अद्यतन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि आयकर देय नहीं हो तो इस आशय का शापथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
15. आवेदक द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

✓
बृजेश कुमार सन्त
अपर सचिव

संख्या: २०२। (1)/VII-1/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्र संख्या-1188/मु०ख०/141/पिथौ०-सोपस्टो०/भ०खनि०ई०/2018-19, दिनांक 20 अगस्त, 2018 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं निम्न निर्देशों के साथ कि उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 यथासंशोधित, 2017 के प्रावधानानुसार खनन पट्टा हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें :-
 - (क) इस आदेश द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के सीमाबन्धन प्रत्येक दशा में इस आदेश की दिनांक से 60 दिवस में करा लिया जाय ताकि समयान्तर्गत पट्टाधारक द्वारा पट्टाविलेख का निष्पादन कराया जा सके।
 - (ख) खनन पट्टा क्षेत्र के सीमाबन्धन की सूचना मय सीमाबन्धन रिपोर्ट, मानचित्र आदि के सीमाबन्धन पूर्ण किये जाने की दिनांक से 10 दिवस में शासन को प्रेषित कर दी जाये।
 - (ग) सीमाबन्धन रिपोर्ट में यह प्रमाण पत्र अवश्य दिया जाये कि खनन पट्टे पर स्वीकृत क्षेत्र में सम्मिलित वन भूमि के अलावा कोई अन्य वन भूमि खनन पट्टा हेतु सीमाबन्धित क्षेत्र में सम्मिलित नहीं की गई है तथा सीमाबन्धित क्षेत्र की परिधि से कम से कम 100 मीटर की दूरी पर है।
2. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
3. मै० माँ देवी दुर्गा सोपस्टोन मार्ईन्स, निवासी कमलुवागांजा मेहता (बोरा कालोनी) हल्द्वानी, जनपद नैनीताल।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अर्पण कुमार राज)
अनु सचिव